

## **प्रेस रिपोर्ट थाना शिवनगर डीडई सिद्धार्थनगर 24.07.2022**

### **ग्राम अयार मे ग्रामीणों से स्थापित किया गया संवाद**

श्री अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम मे, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन मे व श्री देवी गुलाम क्षेत्राधिकारी बांसी के पर्यवेक्षण मे श्री ज्ञानेन्द्र कुमार राय प्रभारी निरीक्षक थाना शिवनगर डीडई जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 24.07.2022 को ग्राम अयार मे पहुंचकर हल्का उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार प्रजापति व ग्राम प्रधान अयार श्री राजेश सिंह व चौकीदार श्री सुभान अली को साथ लेकर ग्रामीणो से सवाद स्थापित किया गया । दौरान सवाद कानून व्यवस्था बनाये रखने मे सहयोग प्रदान करने हेतु सभी को अपराधिक सूचनाओं को अवगत कराने हेतु प्रेरित किया गया तथा आगामी त्यौहार एवं गांव की समस्याओं के बारे मे वार्ता किया गया । कोई समस्या प्रकाश मे नही आयी । महत्वपूर्ण मोबाईल नम्बर व टोल फ्री नम्बर को बताते हुए साईबर क्राईम, सोशल मीडिया एवं सड़क सुरक्षा के सम्बध मे जागरुक किया गया । इस दौरान हल्का उ0नि0, बीट पुलिस अधिकारी, चौकीदार, ग्राम प्रधान एवं उपस्थित ग्रामवासियों का मोबाईल नम्बर आदान-प्रदान कर समन्वय स्थापित कराया गया ।

### **प्रेस नोट दिनांक 24.07.2022 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर**

**मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत, महिलाओं के सशक्तिकरण,स्वावलम्बन, सुरक्षित परिवेश,आत्मरक्षा के प्रति जागरुकता हेतु व जनपद मे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मोहाना महिला पुलिस कर्मियों द्वारा ककरहवा बॉर्डर पर चलाया गया मिशन शक्ति अभियान ।**

श्री अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश के क्रम मे व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 24.07.2022 को प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह थाना मोहाना के कुशल नेतृत्व में थाना मोहाना की महिला पुलिस कर्मी अन्नप्रिया वर्मा द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति जागरुकता हेतु व जनपद मे कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु ककरहवा बाजार व ककरहवा बॉर्डर पर महिलाओं को एकत्र कर जागरुक किया गया, तथा सभी लोगों को पंपलेट वितरित किया गया ।तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।